



**THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India**

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

प्रेस विज्ञप्ति

ब्यूरो के प्रमुख

6 नवंबर, 2020

आईसीएसआई और सीएसआईए ने संयुक्त रूप से विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी सचिव की भूमिका के विस्तार पर वेबिनार आयोजित किया



**THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India**
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

**Live Webinar on "Convergence & Divergence of the Role of a
Corporate Secretary in various Jurisdictions"**

Friday, 06th November, 2020 at 12:05 PM (IST)



कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन (CSIA) के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज (ICSI) ने 6 नवंबर 2020 को "विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी सचिव की भूमिका के विस्तार (अभिसरण और विचलन)" पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया।

कई गवर्नर्स प्रोफेशनल्स एवं लीडर्स ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे दुनिया में विविध विनियामक व्यवस्थाओं ने पारदर्शिता और जवाबदेही को ध्यान में रखकर उनके दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित किया और कैसे कॉर्पोरेट सचिवों की भूमिका इन क्षेत्रों में वर्षों में मत्वपूर्ण साबित हुई है।

नियामक सुधार और आईसीएसआई द्वारा जोखिम को कम करने के लिए किए गए उपायों पर जानकारी देते

हुए संस्थान के अध्यक्ष सीएस आशीष गर्ग ने कहा की "कंपनी सचिवों से विश्व स्तर पर यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वे समय पर मिनट तैयार करने, धोखाधड़ी और विफलताओं की रिपोर्ट करने, दस्तावेजों को प्रमाणित करने नियामक प्राधिकरणों में सुनवाई में बोर्ड का उचित मार्गदर्शन करें। समय समय पर कंपनी सचिवों द्वारा निभाई गई भूमिका में और विस्तार की जरूरत है क्योंकि यह सतह पर दिखाई देने वाले क्षेत्र से अधिक गहन है।

सीएसआईए की अध्यक्ष सुश्री करेन साउथगेट ने इस वेबिनार के माध्यम से सीएसआईए के सदस्य देशों, कॉर्पोरेट सचिवों और शासन पेशेवरों के लिए विचार नेतृत्व, बड़ी पहुंच और ज्ञान साझा करने के अवसरों के बारे में बात की।

गवर्नेंस पेशेवरों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सीएसआईए के उपाध्यक्ष एवं ICSI के पूर्व अध्यक्ष सीएसआई रणजीत पांडे ने कहा की कॉर्पोरेट सेक्रेटरी संगठन में उस आवश्यक, रणनीतिक भूमिका को निभाते हैं जो बोर्ड और नेतृत्व को गवर्नेंस में उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। एक कॉर्पोरेट सेक्रेटरी की भूमिका को अब नए सिरे से परिभाषित किया गया है ताकि देशों के व्यावसायिक वातावरण और कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत किया जा सके। कंपनी सचिव प्रोफेशनल की अपनी ब्रिगेड के साथ ICSI समय की इस आवश्यकता को पूरा करने और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के मजबूत बहुआयामी संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

नाइजीरिया, मलेशिया, जिम्बाब्वे, भारत, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के सभी प्रतिष्ठित वक्ताओं ने कॉर्पोरेट सचिवों उभरती भूमिका की निष्पक्षता को चुनौती देने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया और कॉर्पोरेट सचिवों को विनियामक सुधारों द्वारा लाये सुधारों में कैसे अवसर मिल सके इसपर विचार किया ।

प्रीति कौशिक बनर्जी

निदेशक

कॉर्पोरेट संचार और अंतर्राष्ट्रीय मामले

दूरभाष: 011-4534 1022

ई-मेल: preeti.banerjee@icsi.edu